

अनान्सी मकड़े के बारे में ऐसी कहानियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि वह कितना कुशल और चतुर था। ये कहानियाँ सच्ची हैं। इस बारे में भी कहानियाँ हैं कि अनान्सी मकड़ा कभी-कभी कितना आलसी और धोखेबाज हो सकता था। दुर्भाग्य से, ये कहानियाँ भी सच्ची हैं। इग्या अनान्सी बहुत ही कुशल किसान था। वह खेती के लिए ज़मीन साफ़ करने के लिए अपनी पत्नी और बेटे के साथ साल भर काम करता था। उन्होंने ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर खेती करने के लिए साथ मिलकर काम किया था। लेकिन यह ज़मीन का अब तक का सबसे बड़ा टुकड़ा था जिन्हें उन्होंने कभी साफ़ किया था।

उन्होंने खेत में याम, मक्का और सेम लगाए। फसल बहुत बड़ी थी, ऐसी उन्होंने कभी नहीं उगाई थी। जब अनान्सी ने सभी मक्का और सेम को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और वह जानता था कि जब याम खोदे जाएँगे तो वे भी इतने ही अच्छे होंगे। अचानक, अनान्सी की खुशी लालच में बदल गई। वह इतनी दौलत किसी के भी साथ साझा नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ भी नहीं।

जब फसल पक गई और कटाई के लिए तैयार हो गई तो उसने अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया और कहा, "इन खेतों को तैयार करने और ये फसल उगाने के लिए हम सभी ने कड़ी मेहनत की है। आओ अब हम अपनी फसलें काटें और उन्हें अपने खलिहान में रख लें। जब यह हो जाएगा, तो हम सबको कुछ आराम की ज़रूरत होगी। तुम्हें और हमारे बेटे को कुछ हफ़्ते आराम करने के लिए हमारे गाँव के घर जाना चाहिए। मुझे व्यापार के लिए घर से दूर यात्रा करनी है। जब मैं वापस घर आऊँगा, तो हम सब खेत में आएँगे और बड़ी दावत का मज़ा लेंगे।"

अनान्सी की पत्नी और बेटे ने सोचा कि यह अच्छा विचार है और वे सीधे अपने गाँव चले गए। इससे अनान्सी को षड्यंत्र पूरा करने का मौका मिल गया। उसने खेत के पास अपने लिए आरामदायक झोंपड़ी बनाई और फसल पर खुद को दावत देना शुरू कर दिया। वह दिन की गरमी में सो जाता और भोजन इकट्ठा करने और इसे खुद के लिए तैयार करने के लिए रात में बाहर आता। उसे इसे किसी के साथ बाँटने की ज़रूरत नहीं थी।

इससे पहले कि बहुत लंबा समय बीतता, अनान्सी का बेटा ऐसी स्थिति में आराम करते हुए खुद को दोषी महसूस करने लगा जब उसका पिता व्यापार यात्रा पर गया हुआ था। इसलिए वह खेतों से खर-पतवार हटाने और उन्हें अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए वापस खेत पर चला आया। उसने सोचा कि लुटेरों ने उनकी फसल चुरा ली है। अनान्सी का बेटा गाँव में लौट आया और उसने लोगों को बताया कि क्या हुआ है।

अनान्सी का बेटा गाँव में लौट आया और उसने लोगों को बताया कि क्या हुआ है। उन्होंने छड़ियों से एक आकृति बनाई और भूसे से ढँककर उसे आदमी जैसा बना दिया। उसके बाद उन्होंने भूसे पर चिपचिपी राल लगा दी और आकृति को खेत में ले जाने में मदद की और शाम होने का इंतज़ार करने लगे। कुछ लोग नज़र रखने और चोरों को पकड़ने में अनान्सी के बेटे की मदद करने के लिए उसके साथ रह गए।

इग्या अनान्सी को पता नहीं चला कि क्या हुआ है और वह खलिहान से और भोजन लेने के लिए अपने छिपने की जगह से बाहर आया। खलिहान के रास्ते पर उसने देखा कि एक आदमी की आकृति उसके खेत में खड़ी है। अनान्सी दौड़कर सीधे आकृति तक गया और बोला, "यह खेत मेरे परिवार का है। यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब आकृति चली और बोली नहीं, तो अनान्सी ने अपने दाहिने हाथ से आकृति पर वार

किया।

अनान्सी का हाथ आकृति में बुरी तरह फँस गया। "तुझे मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे फिर मारूँगा। अनान्सी ने अपने बाएँ हाथ से आकृति पर वार किया, और वह भी राल में फँस गया। अनान्सी ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश में अपने पैर से आकृति को धकेलने की कोशिश की। उसका पैर भी वहाँ अटक गया। तब उसने अपने दूसरे पैर से ठोकर मारी। जल्दी ही अनान्सी ज़मीन पर नहीं रहा। वह हवा में लटक रहा था, खेत में राल की आकृति से अटका हुआ। और वह वहाँ भोर तक टँगा रहा।

अनान्सी का बेटा और गाँव वाले अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गए और दौड़कर वहाँ गए जहाँ उन्होंने खेत में आकृति छोड़ी थी। वे डाकू को दंडित करने के लिए लाठियों और भालों के साथ आए थे। यह देखकर वे सभी काफ़ी हैरान हो गए कि चोर वास्तव में अनान्सी ही था। अनान्सी के बेटे को छोड़कर सभी गाँव वाले बहुत हँसे क्योंकि बेटा अपने लालची पिता के कारण बहुत शर्मिंदा था।

अनान्सी को इससे इतनी शर्मिंदगी हुई कि वह कितना स्वार्थी और लालची है कि वह मकड़ी में बदल गया और छिपने के लिए भाग गया। वह एक जगह से दूसरी जगह गया। जब भी किसी ने अनान्सी को देखा, तो वे उस पर हँसे। यह बार-बार होता रहा जब तक अनान्सी अंत में छत के अँधेरे, धूल कोनों में नहीं छिप गया, जहाँ उसके दिखने की संभावना नहीं थी। आज भी वह आम तौर से वहीं मिलता है।